



9 MAR 1978

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 67]
No. 67]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 1978/फाल्गुन 10, 1899
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 1978/PHALGUNA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(बाग बिभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1978

सा० का० नि० 155(अ)/आ०ब०/शर्करा —केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शर्करा (1977-78 में उत्पादित शर्करा कीमत अवधारण) आदेश, 1977 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् —

- 1 (1) इस आदेश का नाम शर्करा (1977-78 में उत्पादित शर्करा कीमत अवधारण) संशोधन आदेश, 1978 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2 शर्करा (1977-78 में उत्पादित शर्करा कीमत अवधारण) आदेश 1977 जिसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है में, खण्ड 2 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

“3 उद्ग्रहण शर्करा प्रवाय (नियंत्रण) आदेश, 1972 के खण्ड 2 के उपखण्ड (1) के अधीन शर्करा (1977-78 में उत्पादित शर्करा कीमत अवधारण) संशोधन आदेश, 1978 के प्रारम्भ से पूर्व, जारी किए गए आदेशों में किसी उत्पादक को सवत भी जाने वाली कीमत की बाबत किसी उपबन्ध के होते हुये भी, जिसमें ऐसे उत्पादक से 1977-78 के वर्ष के उत्पादन में से किसी शर्करा का (केन्द्रीय सरकार को या राज्य सरकार को या उस सरकार को किसी अधिकारी या अधिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग को) विक्रय करने की प्रपेक्षा की गई हो, इस आदेश की अनुसूची I और II स्तम्भ (2) से (7) तक में अवधारित और विनिर्दिष्ट कीमतें, उद्ग्रहण शर्करा प्रवाय (नियंत्रण) आदेश, 1972 के खण्ड 2 के उप-खण्ड (i) के अधीन उक्त आदेशों के अनुसरण में, शर्करा (1977-78 उत्पादित शर्करा कीमत अवधारण) संशोधन आदेश, 1978 के प्रारम्भ पर या उसके पश्चात् परिवर्तन समस्त शर्करा को लागू होगी।”

3 उक्त आदेश से उपावद्ध अनुसूची I और II के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“अनुसूची—I

भारतीय शर्करा मानक श्रेणियों के लिये श्रेणी अनुसार रेल डिब्बों में परिवहन की दशा में (प्रति क्विंटल रुपये में) कीमतें (उत्पादन शुल्क रहित)

क्षेत्र	भारतीय शर्करा मानक (भा० श० मा०)			शर्करा श्रेणियाँ		
	क-30	घ-30	ङ-30	क-29	घ-29	ङ-29
	ख-30			ख-29		
	ग-30			ग-29		
1	2	3	4	5	6	7
1. पंजाब	234.78	233.63	233.08	233.78	232.78	232.28
2. हरियाणा	189.76	188.61	188.06	188.76	187.76	187.26
3. राजस्थान	219.17	218.02	217.47	218.17	217.17	216.67
4. पश्चिमी उत्तर प्रदेश	183.82	182.67	182.12	182.82	181.82	181.32
5. मध्य उत्तर प्रदेश	188.18	187.03	186.48	187.18	186.18	185.68
6. पूर्वी उत्तर प्रदेश	222.94	221.79	221.24	221.94	220.94	220.44
7. उत्तरी बिहार	237.27	236.12	235.57	236.27	235.27	234.77
8. दक्षिणी बिहार	294.63	293.48	292.93	293.63	292.63	292.13
9. गुजरात	189.98	188.83	188.28	188.98	187.98	187.48
10. मध्य प्रदेश	200.69	199.54	198.99	199.69	198.69	198.19
11. महाराष्ट्र	175.59	174.44	173.89	174.59	173.59	173.09
12. कर्नाटक	193.48	192.33	191.78	192.48	191.48	190.98
13. आन्ध्र प्रदेश	161.99	160.84	160.29	160.99	159.99	159.49
14. तमिलनाडु और पांडिचेरी	198.26	197.11	196.56	197.26	196.26	195.76
15. असम, नागालैण्ड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल	239.01	237.86	237.31	238.01	237.01	236.51
16. केरल और गोवा	244.48	243.33	242.78	243.48	242.48	241.98

अनुसूची—II

भा० श० मा० श्रेणियों के लिए श्रेणी अनुसार क्रेता की गाड़ियाँ, लारियों या परिवहन के अन्य साधनों से कारखाने के द्वार पर या कारखाने के गोदाम में परिधान की दशा में (प्रति क्विंटल रुपये में) कीमतें (उत्पादन शुल्क रहित)

क्षेत्र	भारतीय शर्करा मानक (भा० श० मा०)			शर्करा श्रेणियाँ		
	क-30	घ-30	ङ-30	क-29	घ-29	ङ-29
	ख-30			ख-29		
	ग-30			ग-29		
1	2	3	4	5	6	7
1. पंजाब	234.56	233.41	232.86	233.56	232.56	232.06
2. हरियाणा	189.48	188.33	187.78	188.48	187.48	186.98
3. राजस्थान	218.97	217.82	217.27	217.97	216.97	216.47
4. पश्चिमी उत्तर प्रदेश	183.62	182.47	181.92	182.62	181.62	181.12
5. मध्य उत्तर प्रदेश	187.98	186.83	186.28	186.98	185.98	185.48
6. पूर्वी उत्तर प्रदेश	222.73	221.58	221.03	221.73	220.73	220.23
7. उत्तरी बिहार	237.19	236.04	235.49	236.19	235.19	234.69
8. दक्षिणी बिहार	294.55	293.40	292.85	293.55	292.55	292.05
9. गुजरात	189.88	188.73	188.18	188.88	187.88	187.38
10. मध्य प्रदेश	200.52	199.37	198.82	199.52	198.52	198.02
11. महाराष्ट्र	175.29	174.14	173.59	174.29	173.29	172.79
12. कर्नाटक	193.30	192.15	191.60	192.30	191.30	190.80
13. आन्ध्र प्रदेश	161.72	160.57	160.02	160.72	159.72	159.22
14. तमिलनाडु और पांडिचेरी	198.16	197.01	196.46	197.16	196.16	195.66
15. असम, नागालैण्ड, उड़ीसा, और पश्चिमी बंगाल	239.01	237.86	237.31	238.01	237.01	236.51
16. केरल और गोवा	244.48	243.33	242.78	243.48	242.48	241.98.

[2-2/77-एस०पी०वाई० (इस्क-II)]

सी० एन० राघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 1st March, 1978

G.S.R.155(E)/Ess.Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3c) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Sugar (Price Determination for 1977-78 Production) Order, 1977, namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Price Determination for 1977-78 Production) Amendment Order, 1978.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Sugar (Price Determination for 1977-78 Production) Order, 1977 (hereinafter referred to as the said Order), after clause 2, the following clause shall be inserted, namely:—

“3. Notwithstanding any provision in respect of price to be paid to a producer contained in the Orders, issued before the commencement of the Sugar (Price Determination for 1977-78 Production) Amendment Order, 1978, under sub-clause (1) of clause 2 of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1972, requiring such producer to sell any sugar out of the production of the year 1977-78 (whether to the Central Government or a State Government or to an officer or agent of such Government or to any other person or class of persons), the prices determined and specified in columns (2) to (7) of Schedules I and II to this Order shall apply to all sugar delivered on or after the commencement of the Sugar (Price determination for 1977-78 Production) Amendment Order, 1978, against the said Orders under sub-clause (1) of clause 2 of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1972.”

3. For Schedules I and II annexed to the said Order, the following Schedules shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE I

Prices for delivery into railway wagons (Rupees per quintal), Grade-wise for I.S.S. Grades (excluding Excise Duty)

Zone	Indian Sugar Standards (I.S.S.) Grades of Sugar					
	A-30 B-30 C-30	D-30	E-30	A-29 B-29 C-29	D-29	E-29
1	2	3	4	5	6	7
1. Punjab	234.78	233.63	233.08	233.78	232.78	232.28
2. Haryana	189.76	188.61	188.06	188.76	187.76	187.26
3. Rajasthan	219.17	218.02	217.47	218.17	217.17	216.67
4. West U.P.	183.82	182.67	182.12	182.82	181.82	181.32
5. Central U.P.	188.18	187.03	186.48	187.18	186.18	185.68
6. East U.P.	222.94	221.79	221.24	221.94	220.94	220.44
7. North Bihar	237.27	236.12	235.57	236.27	235.27	234.77
8. South Bihar	294.63	293.48	292.93	293.63	292.63	292.13
9. Gujarat	189.98	188.83	188.28	188.98	187.98	187.48
10. Madhya Pradesh	200.69	199.54	198.99	199.69	198.69	198.19
11. Maharashtra	175.59	174.44	193.89	174.59	173.59	173.09
12. Karnataka	193.48	192.33	191.78	192.48	191.48	190.98
13. Andhra Pradesh	161.99	160.84	160.29	160.99	159.99	159.49
14. Tamil Nadu & Pondicherry	198.26	197.11	196.56	197.26	196.26	195.76
15. Assam, Nagal and Orissa and West Bengal	239.01	237.86	237.31	238.01	237.01	236.51
16. Kerala & Goa	244.48	243.33	242.78	243.48	242.48	241.98

SCHEDULE II

Prices for delivery into buyer's carts, lorries or other means of transport at the factory gate/factory godown (rupees per quintal) Grade-wise for ISS grades (exclusive of excise duty)

Zone	Indian Sugar Standards (ISS)			Grades of sugar		
	A-30 B-30 C-30	D-30	E-30	A-29 B-29 C-29	D-29	E-29
1. Punjab	234.56	233.41	232.86	233.56	232.56	232.06
2. Haryana	189.48	188.33	187.78	188.48	187.48	186.98
3. Rajasthan	218.97	217.82	217.27	217.97	216.97	216.47
4. West U.P.	183.62	182.47	181.92	182.62	181.62	181.12
5. Central U.P.	187.98	186.83	186.28	186.98	185.98	185.48
6. East U.P.	222.73	221.58	221.03	221.73	220.73	220.23
7. North Bihar	237.19	236.04	235.49	236.19	235.19	234.69
8. South Bihar	294.55	293.40	292.85	293.55	292.55	292.05
9. Gujarat	189.88	188.73	188.18	188.88	187.88	187.38
10. Madhya Pradesh	200.52	199.37	198.82	199.52	198.52	198.02
11. Maharashtra	175.29	174.14	173.59	174.29	173.29	172.79
12. Karnataka	193.30	192.15	191.60	192.30	191.30	190.80
13. Andhra Pradesh	161.72	160.57	160.02	160.72	159.72	159.22
14. Tamil Nadu & Pondicherry	198.16	197.01	196.46	197.16	196.16	195.66
15. Assam, Nagaland Orissa and West Bengal	239.01	237.86	237.31	238.01	237.01	236.51
16. Kerala & Goa	244.48	243.33	242.78	243.48	242.48	241.98

[2-2/77-SPY(Desk-II)]

C. N. RAGHAVAN, Joint Secretary.